

## प्रेस नोट दिनांक थाना कैण्ट गोरखपुर 24.07.2022

### **मारपीट व लूट की घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 530/2022 धारा 323/504/392/427 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त राघव सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी गौतम विहार MIG-60 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर पार्क रोड के पास से दिनांक-24.07.2022 को समय-03.30 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

### **संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-**

दिनांक 23/07/2022 को शाम 8 बजे होटल क्लार्क्स गोरखपुर की पार्किंग में से एक सफेद i-20 कार द्वारा बैक करते समय आवेदक डा0 शुभांकित की गाडी टाटा सफारी से छू गयी। i-20 गाडी में सवार तीन व्यक्तियों द्वारा आवेदक उपरोक्त के गाडी को घेर कर बाहर निकाला गया एवं उसमें से एक व्यक्ति जो गाडी चला रहा था उसने गाली- गलौज करते हुए डा. शुभांकित आर्य पर हमला कर दिया और उनकी गोल्ड चेन छीनी एवं उनका चश्मा भी तोड़ दिया। उस समय आवेदक अपने बचाव की कोशिश की किन्तु अपने आत्मरक्षार्थ में सफल नहीं हुआ। हमला करने वाले संख्या में तीन थे, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गये। जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर सुसंगत धारा में मु0अ0सं0-530/2022 धारा 323/504/392/427 भादवि0 पंजीकृत हुआ और त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना में संलिप्त एक अभियुक्त व घटना में प्रयुक्त वाहन को कब्जा पुलिस में लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने दो अन्य मित्रों के साथ होटल क्लार्क के बार से निकल रहा था तभी पार्किंग स्थल पर ही वादी से उनकी भिडन्त हो गयी और उनके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक घटना को कारित करते हुए वादी की चैन छिनकर भाग गये।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

राघव सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी गौतम विहार MIG-60 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0- 530/2022 धारा 323/504/392/427 भादवि0 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

### **गिरफ्तारी का स्थान /समय/बरामदगी**

पार्क रोड के पास से दिनांक-24.07.2022 को समय-03.30 बजे

### **गिरफ्तारी की टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी जटेपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 राजेश यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 संदीप थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर